



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 फाल्गुन 1934 (श०)  
(सं० पटना 240) पटना, शुक्रवार, 15 मार्च 2013

---

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना  
7 मार्च 2013

सं० पुरा/सु-1-03/09-247-राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या पटना-649 दिनांक 6 सितम्बर 2010 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचित संख्या-पुरा/सु-1-03/09-247 दिनांक 17 अगस्त 2010 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल अहिल्या स्थान, दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड अन्तर्गत प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करने के अपने आशय का दो माह की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976" (1976 का 19) की धारा-3 की उप-धारा-1 के आदेशानुसार उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी।

उक्त राजपत्र, पटना-649, दिनांक 6 सितम्बर 2010 जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अर्जुन प्रसाद साह,

सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल स्मारक का नाम	अवशेष	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी
1	2	3	4	5	6	7
1	अहिल्या स्थान	(i) मंदिर	534— पुराना 1968— नया	4796—नया 8262  4797—पुराना 4795—पुराना 8263—नया	0.22डी.  0.53डी.	उ०—अतिथिशाला  द० पू०—अयोध्या— ठाकुर  प०— रास्ता
		(ii) पोखर	3103—नया	8258—नया	0.28डी.	
				योग—	1.03 डी. (एक एकड़ तीन डी.)	

जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13	14	15
मंदिर	अहियारी	अहियारी	जाले	कमतौल	59	दरभंगा	—
मंदिर—सह —सहन							
पोखर	”	”	”	”	”	”	—

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 240-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>